

49678 - क्या अल्लाह तआला अर्द्ध शाबान की रात को पहले आकाश पर उतरता है?

प्रश्न

क्या अल्लाह तआला अर्द्ध शाबान (पंद्रहवीं शाबान) की रात को पहले (निचले) आकाश पर उतरता है और दो प्रकार के लोगों को छोड़कर सभी लोगों को क्षमा कर देता है, और वे दोनों क्राफ़िर और बैर व द्वेष रखने वाले लोग हैं?

विस्तृत उत्तर

कुछ हदीसों में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन उन हदीसों की प्रामाणिकता के बारे में कुछ विद्वानों का मतभेद है, और पंद्रहवीं शाबान की रात की विशेषता के बारे में कोई हदीस प्रमाणित (सही) नहीं है।

अबू मूसा अल-अश्अरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अल्लाह तआला अर्द्ध शाबान की रात को देखता है, फिर मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) और (अपने मुसलमान भाई से) बैर व द्वेष रखने वाले के सिवाय अपनी सारी सृष्टि को क्षमा कर देता है।" इसे इब्न माजा (हदीस संख्या: 1391) ने रिवायत किया है।

"बैर व द्वेष रखने वाले" से अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसके और उसके (मुसलमान) भाई के बीच दुश्मनी हो।

"अज़-ज़वाइद" में है कि : इसकी इसनाद, अब्दुल्लाह बिन लहीआ के ज़ईफ़ (कमज़ोर) होने और अल-वलीद बिन मुस्लिम के मुदल्लिस होने (अनअना के द्वारा रिवायत करने) के कारण, ज़ईफ़ (कमज़ोर) है।

तथा इस हदीस में "इज़्तिराब" (एक प्रकार का हदीस के विज्ञान संबंधी दोष) भी पाया जाता है जिसे अद-दाराकुल्नी ने अपनी पुस्तक "अल-इलल" (6/50, 51) में किया है और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि : "यह हदीस साबित (सिद्ध) नहीं है।"

यह मुआज़ बिन जबल, आयशा, अबू हुरैरा और अबू सालबा अल-खुशानी वगैरह की हदीस से (भी) वर्णित है, लेकिन कोई इसनाद कमज़ोरी से मुक्त नहीं हैं, और उनमें से कुछ बहुत कमज़ोर हैं।

इब्न रजब अल-हंबली कहते हैं :

"अर्द्ध शाबान (या पंद्रहवीं शाबान) की रात की विशेषता के बारे में कई हदीसों हैं, जिनके बारे में विद्वानों का मतभेद है। परन्तु उनमें से ज़्यादातर विद्वानों ने उन्हें ज़ईफ़ घोषित किया है, जबकि इब्न हिब्बान ने उनमें से कुछ को सही कहा है।"

"लताईफ़ुल मआरिफ़" (261).

अल्लाह तआला का पहले आकाश पर उतरना अब्दु श़ाबान (पंद्रहवीं श़ाबान) की रात के साथ विशिष्ट नहीं है। बल्कि सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम वगैरह में साबित है कि अल्लाह तआला हर रात को उसके आखिरी तीसरे भाग में निचले आकाश पर उतरता है। और पंद्रहवीं श़ाबान की रात इस सामान्य अर्थ में शामिल है।

इसीलिए जब अब्दुल्लाह बिन अल-मुबारक से अल्लाह तआला के पंद्रहवीं श़ाबान की रात को उतरने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ने प्रश्न करनेवाले से कहा: “हे कमज़ोर! पंद्रहवीं रात!? वह हर रात उतरता है।”

इसे अबू उसमान अस्साबूनी ने “एतिक़ादो अल्लिस् सुन्नह” (संख्या: 92) में रिवायत किया है।

तथा अल-उक़ैली रहिमहुल्लाह ने फरमाया : श़ाबान की पंद्रहवीं रात को अल्लाह के उतरने के बारे में कई हदीसें हैं जिनमें कमज़ोरी पाई जाती है, लेकिन हर रात को उतरने के बारे में वर्णित हदीसें सही और साबित (प्रमाणित और सिद्ध) हैं। अतः पंद्रहवीं श़ाबान की रात, इन शा अल्लाह, उसमें शामिल है।

“अज़-ज़ोअफ़ा” (3/29)

तथा प्रश्न संख्या (8907) का भी उत्तर देखें।

इस साइट पर शैख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह (अल्लाह तआला उनपर दया करे) का “पंद्रहवीं श़ाबान की रात का ज़म्र मनाने के हुक्म” के बारे में एक लेख भी मौजूद है, जो साइट पर “विशेष अवसरों से संबंधित विषय” के अनुभाग में उपलब्ध है।